

गैर-सरकारी गैर-बैंकिंग वित्तीय और निवेश कंपनियों के निष्पादन वर्ष 2014-15*

चुनिंदा 23,293 गैर-सरकारी गैर-बैंकिंग वित्तीय निवेश कंपनियों (एनजीएनबीएफएंडआई) के वर्ष 2014-15 के वित्तीय निष्पादन के विश्लेषण, जो उनके लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों पर आधारित हैं, से ज्ञात होता है कि वर्ष 2014-15 के दौरान एनजीएनबीएफएंडआई कंपनियों के समग्र निष्पादन पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर हुए हैं। एनजीएनबीएफएंडआई कंपनियों के सकल मूल्य योजन पिछले वर्ष की तुलना में 2014-15 में अत्यधिक ऊंची दर से बढ़े हैं, जो मुख्यतया ऊंची ब्याज आय होने के कारण था। परिचालन लाभ (ईबीडीटी) तथा निवल लाभ पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014-15 में काफी बढ़े हैं। तथा पिछले वर्ष के मुकाबले वर्ष 2014-15 में परिचालन लाभ मार्जिन, आस्तियों पर प्रतिलाभ और शेयरधारकों की इक्विटी पर प्रतिलाभ में वृद्धि हुई है। लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में 2014-15 में अनुमानित प्राप्य अनुपातों की तुलना में लीवरेज और अशोध्य ऋण बढ़ गया था। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014-15 में कुल इक्विटी एवं देयताओं में अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक उधार का हिस्सा बढ़ गया था। साथ ही तीन वर्षों के भीतर शेयरधारकों की निधि धीरे-धीरे कम होती गई है। आस्ति पक्ष में, कुल आस्तियों में अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिमों का हिस्सा 2014-15 में बढ़ गया है, जबकि निवर्तमान निवेश सहित दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम का हिस्सा 2014-15 में कम हो गया था। चुनिंदा एनजीएनबीएफएंडआई कंपनियां कारोबार विस्तार के लिए मुख्य रूप से निधि के बाहरी स्रोतों पर निर्भर रही हैं, हालांकि 2014-15 के दौरान कुल निधि स्रोतों में उनका हिस्सा थोड़ा सा घट गया था। ऋण वित्त के माध्यम से जुटाई गई राशि का हिस्सा 2014-15 में बढ़ गया था। इन निधियों का उपयोग

* सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई के कंपनी वित्त प्रभाग में तैयार किया गया। पिछला आलेख रिजर्व बैंक बुलेटिन के अक्टूबर 2015 अंक में प्रकाशित हुआ था, जिसमें वर्ष 2013-14 के दौरान 18,225 गैर-सरकारी गैर-बैंकिंग वित्तीय और निवेश कंपनियां शामिल थीं।

खासकर अपने निवेश बढ़ाने तथा अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम पोर्टफोलिया के लिए किया गया था।

इस आलेख में गैर-सरकारी गैर-बैंकिंग वित्तीय और निवेश (एनजीएनबीएफएंडआई) कंपनियों (बीमा और बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) के वित्तीय वर्ष 2014-15 निष्पादन का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है जो 23,293 कंपनियों के लेखापरीक्षित लेखों पर आधारित है जिन्होंने अपने खाते अप्रैल 2014 से मार्च 2015 के दौरान बंद किए हैं। इनमें से 22,899 कंपनियों के डाटा कंपनी कार्य मंत्रालय (एमसीए)¹ के सिस्टम एक्सटेंसिबल रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) और फार्म एओसी 4 (गैर-एक्सबीआरएल) प्लेटफार्म पर आधारित हैं, 363 कंपनियों के डाटा सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग द्वारा रिजर्व बैंक के गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय से मिलाकर प्राप्त किए गए हैं, जबकि 31 कंपनियों के बारे में डाटा अन्य स्रोतों (जिन्हें एमसीए एवं डीएसआईएम डाटाबेस के चुनिंदा एनजीएनबीएफएंडआई में शामिल नहीं किया गया है) से प्राप्त किए गए हैं। इस आलेख में इन कंपनियों के पिछले तीन वर्ष अर्थात् 2012-13 से 2014-15 के दौरान निष्पादन की तुलनात्मक स्थिति का मूल्यांकन किया गया है। चुनिंदा 23,293 कंपनियों के विस्तृत डाटा जो वर्ष 2014-15 के अध्ययन से संबंधित हैं उनकी व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित रिजर्व बैंक वेबसाइट पर डाटा रिलीज सेक्शन में मार्च 2016 में उपलब्ध हैं। कंपनी कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार द्वारा दिए गए जनसंख्या प्रदत्त-पूंजी (पीयूसी) के अनंतिम अनुमान के अनुसार समस्त एनजीएनबीएफएंडआई की कुल पीयूसी में चुनिंदा एनजीएनबीएफएंडआई का हिस्सा 31 मार्च, 2015 को 77.8 प्रतिशत था।

एनजीएनबीएफएंडआई कंपनियों की पहचान राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी) 2004 कूट के आधार पर की गई है और उन्हें आगे पांच प्रमुख गतिविधि-समूह में विभाजित किया गया है, जैसे - (1) शेयर व्यापार और निवेश होल्डिंग, (2) ऋण वित्त, (3) आस्ति वित्त, (4) नाना प्रकार एवं (5) विविध (चिट फंड और

¹ सीएफडी कॉरपोरेट आंकड़े एमसीए से प्राप्त करता रहता है, जोकि कॉरपोरेट सेक्टर की सांख्यिकी एकत्र करता है अर्थात् वार्षिक तुलन-पत्र एवं लाभ तथा हानि खातों के आंकड़े, दो आपसी प्रणालियों द्वारा एकत्र किया जाता है, नामतः सिस्टम्स एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) और फार्म एओसी-4 (एक्सबीआरएल से इतर) प्लेटफार्म। एक्सबीआरएल आधारित प्रणाली के तहत रु.5 करोड़ या उससे अधिक पीयूसी वाली कंपनियां या रु.100 करोड़ और उससे अधिक टर्न ओवरवाली कंपनियों अथवा सूचीबद्ध कंपनियों अपना पूर्ण वार्षिक लेखा प्रस्तुत करती हैं जबकि फार्म एओसी-4 प्रणाली के तहत शेष कंपनियों के वार्षिक लेखाओं से कुछ चुनिंदा चरों संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करती हैं।

सारणी 1: चुनिंदा 23,293 कंपनियों की गतिविधि समूह आधार पर संरचना: 2014-15

प्रतिशत

गतिविधि	कंपनियों की संख्या	चुकता पूंजी	वित्तीय आय	कुल निवल आस्तियां
शेयर व्यापार और निवेश होल्डिंग	44.9	32.5	17.6	15.4
ऋण वित्त	12.8	29.4	39.3	36.6
आस्तित्व वित्त	18.3	20.7	26.1	32.6
नाना-प्रकार	4.2	3.1	1.2	1.6
विविध	19.8	14.4	15.8	13.7
जिसमें से:				
चिट-फंड/क्यूरी और यूटीआई सहित म्यूचुअल फंड	6.3	1.0	0.7	0.7
सभी गतिविधियां	100.0 (23,293)	100.0 (9,42,630)	100.0 (21,22,637)	100.0 (179,34,570)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़ें संबंधित कालम का जोड़ दर्शाता है। राशी मिलियन रुपये में है।

म्यूचुअल फंड कंपनियों सहित)। पीयूसी के अनुसार, चुनिंदा 23,293 एनजीएनबीएफएंडआई कंपनियों की संघटना में 'शेयर व्यापार और निवेश होल्डिंग' का हिस्सा सबसे अधिक है, उसके बाद 'ऋण वित्त' और 'आस्तित्व वित्त' कंपनियों का हिस्सा है। हालांकि 'ऋण वित्त' कंपनियों का वित्तीय पैरामीटर अर्थात् 2014-15 के दौरान वित्तीय आय तथा कुल निवल आस्तियों के अनुसार नमूने में वर्चस्व रहा है (सारणी 1)।


1. वृद्धि दरें : सकल मूल्य योजन में अत्यधिक वृद्धि हुई

1.1 चुनिंदा एनजीएनबीएफएंडआई कंपनियों के सकल मूल्य योजन (जीवीए) 2013-14 में दर्ज 14.5 प्रतिशत की तुलना में

2014-15 में अत्यधिक वृद्धि के साथ 20.5 प्रतिशत था। जीवीए में सुधार मुख्य रूप से 2014-15 के दौरान परिचालन लाभ तथा कर्मचारी पारिश्रमिक में अत्यधिक वृद्धि के कारण हुआ था (चार्ट 1 और विवरण 1)।

1.2 चुनिंदा 23,293 एनजीएनबीएफएंडआई कंपनियों की वित्तीय आय में 2013-14 के 15.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2014-15 में 17.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इस वृद्धि की मुख्य वजह वर्ष के दौरान उच्च ब्याज आय का प्राप्त होना था। हालांकि लाभांश आय में 2013-14 के 2.5 प्रतिशत की तुलना में 2014-15 में काफी 31.7 प्रतिशत की काफी गिरावट हुई। वित्तीय आय में वृद्धि के

चार्ट 1: चुनिंदा मदों की वृद्धि दर: 2013-14 और 2014-15



फलस्वरूप कुल आय में काफी बढ़ोतरी हो गई है, जो 2013-14 के 13.1 प्रतिशत की तुलना में 2014-15 में 17.4 प्रतिशत की दर से बढ़ी है (चार्ट 1 और विवरण 1)।

1.3 दूसरी ओर कुल आय की तुलना में कुल व्यय धीमी दर से बढ़ा है, जिससे परिचालन लाभ (ईबीडीटी) बढ़ गया जो 2013-14 के 15.8 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 2014-15 में 19.7 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2014-15 में ब्याज भुगतान की वृद्धि दर में काफी गिरावट पाई गई। ब्याज संबंधी व्यय 2013-14 के 17.1 प्रतिशत की तुलना में 2014-15 में कम दर 12.7 प्रतिशत बढ़े हैं (चार्ट 1)।

1.4 लाभांश भुगतान में कमी आई है, पिछले वर्ष के 17.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में यह 2014-15 में 7.8 प्रतिशत घट गया, जिसके कारण 2014-15 में धारित लाभ में उच्च वृद्धि हुई है (विवरण 1)।


1.5 कुल उधार की वृद्धि दर में 2013-14 के 12.5 प्रतिशत की तुलना में 2014-15 में 19.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लेकिन बैंकों से लिए गए उधार की दर मंद रही जो पिछले वर्ष के 12.0 प्रतिशत की तुलना में 2014-15 में 11.7 प्रतिशत ही थी। यह भी पाया गया है कि निवेश (अल्प एवं दीर्घकालिक दोनों) में भारी वृद्धि हुई है जिसमें पिछले वर्ष 4.5 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 2014-15 में 19.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है (विवरण 1)।

1.6 गतिविधि समूह जैसे 'ऋण वित्त' और 'विविध' कंपनियों के जीविए में पिछले वर्ष की तुलना में 2014-15 में अत्यधिक वृद्धि हुई है (विवरण 1)।

2. चलनिधि स्थिति और परिचालन क्षमता : निवल कार्यशील पूंजी और निवल ब्याज मार्जिन में सुधार हुआ है।

2.1 चुनिंदा एनजीएनबीएफएंडआई कंपनियों की चलनिधि स्थिति जो उनके अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए होती है, जिसकी माप चालू अनुपात (चालू देयताओं की तुलना में चालू आस्तियों का अनुपात) से की जाती है, उसमें मामूली वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष के 1.0 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 1.1 प्रतिशत हो गई थी। इसके अलावा, सालवेंसी अनुपात (जिसकी माप कुल बाह्य देयताओं की तुलना में परिचालन लाभ के अनुपात से की जाती है) और निवल कार्यशील पूंजी (जिसकी माप चालू आस्तियों में से चालू देयताओं को घटाकर कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में दर्शाई जाती है) में भी वृद्धि हुई है जो 2013-14 के क्रमशः 3.4 प्रतिशत और 1.0

**चार्ट 2 : चलनिधि स्थिति और परिचालन क्षमता :
2012-13 से 2014-15**



प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में क्रमशः 3.5 प्रतिशत और 3.4 प्रतिशत हो गई (चार्ट 2 और विवरण 2)।

2.2 परिचालन पक्ष की ओर देखें तो चुनिंदा एनजीएनबीएफएंडआई कंपनियों ने अपनी आस्तियों को पिछले वर्ष की तुलना में 2014-15 में अधिक कुशलतापूर्वक लगाया है। निवल ब्याज मार्जिन जिसे कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है 2013-14 के 3.0 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 3.4 प्रतिशत हो गया था (चार्ट 2 और विवरण 2)।

3. लाभप्रदता अनुपात : परिचालन लाभ मार्जिन तथा आस्तियों पर प्रतिलाभ एवं इक्विटी पर प्रतिलाभ में सुधार हुआ है

3.1 चुनिंदा एनजीएनबीएफएंडआई कंपनियों के परिचालन लाभ मार्जिन, जिसकी माप वित्तीय आय की तुलना में परिचालन लाभ के अनुपात के रूप में की जाती है, में मामूली वृद्धि हुई है जो पिछले वर्ष के 28.8 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 29.4 प्रतिशत हो गया था। गतिविधि समूह में 'शेयर व्यापार और निवेश होल्डिंग', 'ऋणवित्त' तथा 'नाना प्रकार' की कंपनियों में पिछले वर्ष की तुलना में 2014-15 में परिचालन लाभ मार्जिन में वृद्धि पाई गई थी (विवरण 2)।

3.2 चुनिंदा एनजीएनबीएफएंडआई कंपनियों की आस्तियों पर प्रतिलाभ (जिसकी माप कुल निवल आस्तियों की तुलना में निवल लाभ के अनुपात के रूप में की जाती है) और इक्विटी पर प्रतिलाभ (जिसकी माप निवल मालियत की तुलना में निवल लाभ के अनुपात

के रूप में की जाती है) में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है जो वर्ष 2013-14 के क्रमशः 2.2 प्रतिशत और 8.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014-15 में क्रमशः 2.3 प्रतिशत एवं 8.9 प्रतिशत हो गया था। 'विविध' स्वरूप की कंपनियों को छोड़कर अन्य सभी गतिविधि समूह में पिछले वर्ष की तुलना में 2014-15 में आस्तियों पर प्रतिलाभ तथा इक्विटी पर प्रतिलाभ में थोड़ी वृद्धि हुई थी (विवरण 2)।

3.3 लाभांश भुगतान अनुपात (जिसकी माप निवल लाभ की तुलना में प्रदत्त लाभांश के अनुपात के रूप में की जाती है) काफी घट गया था जो पिछले वर्ष के 29.1 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014-15 में 22.3 प्रतिशत हो गया था। 'विविध' स्वरूप की कंपनियों को छोड़कर अन्य सभी गतिविधि समूह में पिछले वर्ष की तुलना में 2014-15 में लाभांश भुगतान अनुपात घट गया था (विवरण 2)।


4. प्रभावशीलता : अनुमानित प्राप्य अनुपात की तुलना में लीवरेज एवं अशोध्य ऋण बढ़ गया था।

4.1 चुनिंदा एनजीएनबीएफएंडआई कंपनियों के लीवरेज अनुपात (जिसकी माप इक्विटी की तुलना में कर्ज के अनुपात से की जाती है) धीरे-धीरे बढ़ गया था जो 2012-13 में 133.3 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 146.1 प्रतिशत हो गया था। 'आस्ति वित्त' कंपनियों का लीवरेज अनुपात अन्य गतिविधि समूह की तुलना में तीन वर्ष की अध्ययन अवधि के दौरान काफी ऊंचे स्तर पर था जो 2014-15 में 300.0 प्रतिशत तक बढ़ गया था (चार्ट 3)।


4.2 हालांकि चुनिंदा एनजीएनबीएफएंडआई कंपनियों का उनकी चलनिधि की स्थिति और परिचालन क्षमता की दृष्टि से समग्र निष्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 2014-15 में बेहतर हुआ है, लेकिन अनुमानित प्राप्यों² की तुलना में उनके अशोध्य ऋण 2013-14 के 2.8 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 5.0 प्रतिशत तक हो गए, जो एक प्रकार से उनके लाभ के समाप्त जाने के समान है। अनुमानित प्राप्यों की तुलना में अशोध्य ऋण में बढ़ोतरी का मुख्य कारण 'ऋण वित्त' कंपनियां रहीं हैं (चार्ट 4 और विवरण 2)।

5. आय और व्यय : कुल आय में ब्याज आय का हिस्सा बढ़ा है और कुल व्यय में ब्याज व्यय का हिस्सा कम हुआ है

5.1 एनजीएनबीएफएंडआई कंपनियों के लिए आय पैदा करने का स्रोत शुल्क आधारित आय की तुलना में निधि आधारित आय अधिक बढ़-चढ़कर भूमिका अदा कर रही है। ब्याज-आय का हिस्सा, जो एनजीएनबीएफएंडआई कंपनियों की निधि-आधारित आय का मुख्य स्रोत रहा है, कुल आय में उसका हिस्सा पिछले वर्ष के 70.8 प्रतिशत की तुलना में 2014-15 में बढ़कर 72.1 प्रतिशत हो गया था। वर्ष के दौरान ब्याज-आय में यह वृद्धि 'ऋण वित्त' कंपनियों को छोड़कर अन्य सभी गतिविधि समूह में पाई गई



² अनुमानित प्राप्यों की परिभाषा इस प्रकार है - अशोध्य ऋण में प्राप्यों को जोड़ें तथा अशोध्य ऋण में संदिग्ध ऋण का प्रावधान शामिल है।



है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 2014-15 में मामूली गिरावट दिखाई दी है (विवरण 3)।

5.2 व्यय पक्ष की ओर, चुनिंदा एनजीएनबीएफएंडआई कंपनियों के कुल व्यय में ब्याज व्यय का हिस्सा 2013-14 के 62.2 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 60.3 प्रतिशत हो गया था। किंतु, 2014-15 के दौरान कुल व्यय में कर्मचारी लाभ व्यय (वेतन, मजदूरी और बोनस, साथ में भविष्य निधि, साथ में कर्मचारी कल्याण व्यय) का हिस्सा बढ़ गया था। कर्मचारियों के लाभ व्यय के हिस्से में यह वृद्धि 'शेयर व्यापार और निवेश होल्डिंग' कंपनियों को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों में पाई गई है (विवरण 3)।

6. देयता संरचना: शेयर धारकों की निधि का हिस्सा धीरे-धीरे घटता गया किंतु अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक उधारी का हिस्सा बढ़ गया है


6.1 कुल इक्विटी और देयताओं में शेयरधारकों की निधि का हिस्सा धीरे-धीरे घटता गया है जो 2012-13 के 28.3 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 26.2 प्रतिशत हो गया (चार्ट 5)। इसी प्रकार की प्रवृत्ति आरक्षित राशि तथा अधिशेष एवं शेयरपूंजी की भी रही है। कुल इक्विटी एवं देयताओं में 2014-15 में शेयरधारकों की निधि के हिस्से में गिरावट समस्त गतिविधि समूह में पाई गई थी (विवरण 4)।

6.2 चुनिंदा एनजीएनबीएफएंडआई कंपनियों की पूंजी संरचना से पता चलता है कि कुल इक्विटी एवं देयताओं में अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक उधारी का हिस्सा 2013-14 को क्रमशः 13.4 प्रतिशत एवं 37.6 प्रतिशत की तुलना में 2014-15 में बढ़कर क्रमशः 14.4 एवं 38.3 प्रतिशत हो गया था। इसके अलावा, बैंक से लिए गए दीर्घकालिक ऋण का हिस्सा भी 2013-14 के 14.4 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 15.7 प्रतिशत हो गया था (चार्ट 5 और विवरण 4)।

6.3 केवल 'नाना प्रकार' की कंपनियों को छोड़कर कुल इक्विटी एवं देयताओं में दीर्घकालिक उधार का हिस्सा अन्य सभी गतिविधि समूह में बढ़ गया था, जो 2013-14 के 8.4 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 5.9 प्रतिशत हो गया था। 'शेयर व्यापार और निवेश होल्डिंग', 'ऋण वित्त' और 'विविध' कंपनियों के लिए कुल इक्विटी एवं देयताओं में अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक उधार का हिस्सा 2014-15 के दौरान बढ़ गया था (विवरण 4)।


7. आस्तियों का पैटर्न : कुल आस्तियों में अल्पकालिक ऋण और अग्रिमों का हिस्सा बढ़ा है जबकि दीर्घकालिक ऋण और अग्रिमों एवं निवर्तमान निवेश का हिस्सा घटा है

7.1 चुनिंदा एनजीएनबीएफएंडआई कंपनियों की आस्तियों के संघटकों से पता चलता है कि कुल आस्तियों में ऋण और अग्रिम (अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक ऋण तथा अग्रिमों सहित) का हिस्सा 60.0 प्रतिशत से अधिक था। कुल आस्तियों में दीर्घकालिक ऋणों और अग्रिम का हिस्सा 2013-14 के 48.2 प्रतिशत से घटकर



2014-15 में 46.5 प्रतिशत हो गया था, जबकि अल्पकालिक ऋणों और अग्रिमों का हिस्सा पिछले वर्ष के 17.9 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 20.2 प्रतिशत हो गया था। कुल आस्तियों में अल्पकालिक ऋणों और अग्रिमों के हिस्सों में 2014-15 के दौरान वृद्धि 'विविध' कंपनियों को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधि समूह में पाई गई (चाट 6 और विवरण 5)।

7.2 कुल आस्तियों में निवर्तमान निवेश का हिस्सा धीरे-धीरे कम होता गया है जो 2012-14 के 14.7 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 13.7 प्रतिशत हो गया था। कुल आस्तियों में निवर्तमान निवेश के हिस्से में इस प्रकार की धीरे-धीरे गिरावट 'विविध' कंपनियों को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधि समूह में पाई गई थी (चाट 6 और विवरण 5)।



7.3 तथापि, कुल आस्तियों में वर्तमान निवेश का हिस्सा 2013-14 में 2.8 प्रतिशत से बढ़कर 3.6 प्रतिशत हो गया है। इसके अतिरिक्त, कुल आस्तियों में नकदी और नकदी के समतुल्य का हिस्सा 2013-14 में 5.8 प्रतिशत था जो मामूली सा घटकर 2014-15 में 5.7 प्रतिशत हो गया था (चार्ट 6)।

8. निधियों के स्रोत: कुल निधियों के स्रोत में ऋण वित्त के माध्यम से जुटाई गई निधि के हिस्से में बढ़ोत्तरी

8.1 चुनिंदा एनजीएनबीएफएंड आई कंपनियों (जो कुल इक्विटी और देयताओं में 50 प्रतिशत से अधिक कवर करती हैं) की कुल इक्विटी और देयताओं की संरचना में अल्पावधि और दीर्घावधि उधारियों की बृहत भूमिका के साथ, कारोबार विस्तार करने में बाह्य स्रोतों ने निरंतर प्रमुख भूमिका निभाई है। फिर भी, निधियों के कुल स्रोत में बाह्य स्रोतों के माध्यम से जुटाई गई निधि का हिस्सा जो 2013-14 में 84.8 प्रतिशत था उसमें मामूली सा घटकर 2014-15 में वह 84.2 प्रतिशत हो गया था। सभी गतिविधि समूह के बीच केवल 'आस्ति वित्त' कंपनियों को छोड़कर कुल निधियों के स्रोत में निधियों के बाह्य स्रोत के हिस्से में कमी हुई है (विवरण 6)।

8.2 वर्ष के दौरान ऋण वित्त के माध्यम से (अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों उधारियां) जुटाई गई निधि में बढ़ोत्तरी हुई है। निधियों के कुल स्रोतों में अल्पावधि और दीर्घावधि उधारियों के माध्यम से जुटाई गई निधियों के हिस्से में जो 2013-14 में 36.9 प्रतिशत और 2014-15 में 14.8 प्रतिशत थी उसमें वर्ष 2014-15 में क्रमशः 42.6 प्रतिशत और 20.3 प्रतिशत की वृद्धि पायी गयी। यह वृद्धि अल्पावधि और दीर्घावधि उधारियों के माध्यम से निधि के हिस्से में बढ़ोत्तरी के कारण हुई थी जिसमें बैंकों से लिये गये मीयादी ऋण और अन्य अल्पावधि ऋण और अग्रिमों के साथ बैंकों से लिए गए दीर्घावधि बान्ड/डिबेंचरों के माध्यम से निधि में वृद्धि हुई है। निधियों के कुल स्रोत में बैंकों से लिए गए मीयादी ऋण के माध्यम से जुटाई गई निधि के हिस्से में वृद्धि हुई है जो पिछले वर्ष 6.4 प्रतिशत थी वह 2014-15 में बढ़कर 24.4 प्रतिशत हो गई (विवरण 6)।

8.3 निधियों के कुल स्रोत में निधि के आंतरिक स्रोत के हिस्से में मामूली वृद्धि हुई है जो पिछले वर्ष 15.2 प्रतिशत थी वह बढ़कर 2014-15 में 15.8 प्रतिशत हुई है। जिसमें 2014-15 के दौरान आरक्षित और अधिशेष के हिस्से में वृद्धि का व्यापक हिस्सा था। सभी गतिविधि समूह के बीच निधि के कुल स्रोत में निधि के आंतरिक स्रोत के हिस्से में केवल 'आस्ति वित्त' कंपनियों के हिस्से में बढ़ोत्तरी हुई है (विवरण 6)।

9. निधियों का उपयोग: व्यावसायिक गतिविधियों में अल्पकालिक ऋण के वित्तपोषण और निवेश में तेजी

9.1 अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम मिलाकर कुल निधि में से लगभग 70 प्रतिशत का उपयोग किया गया है। निधि के कुल उपयोग में चुनिंदा एनजीएनबीएफएंडआई कंपनियों द्वारा अल्पकालिक ऋण और अग्रिम के हिस्से में बढ़ोत्तरी हुई है जो 2013-14 में 15.9 प्रतिशत था वह 2014-15 में बढ़कर 34.7 प्रतिशत हो गया, जबकि कुल निधि के उपयोग में से दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम का हिस्सा जो पिछले वर्ष 59.6 प्रतिशत था वह घटकर 2014-15 में 34.9 प्रतिशत हो गया था। इसी प्रकार, कुल निधि के उपयोग में से निवर्तमान निवेश के हिस्से में जो 2013-14 में 6.7 प्रतिशत था 2014-15 में 13.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी (विवरण 7)।

9.2 वर्ष 2014-15 के दौरान निधि के कुल उपयोग में सभी गतिविधि समूह के बीच 'विविध' कंपनियों के अलावा अन्य सभी में अल्पकालिक ऋण और अग्रिम के हिस्से में बढ़ोत्तरी हुई थी। जब कि, 'शेयर व्यापार और निवेश संपत्ति', 'आस्ति वित्त' और 'विविध' कंपनियों के लिए निधि के कुल उपयोग में दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम के हिस्से में कमी हुई है। निधि के कुल उपयोग में 'ऋण वित्त' कंपनियों के लिए दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम के हिस्से में 2014-15 के दौरान 70.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो 2013-14 के दौरान 61.5 प्रतिशत थी (विवरण 7)।

10. चिट फंड तथा म्यूचुअल फंड कंपनियों के कार्यनिष्पादन: परिचालनगत लाभ मार्जिन, आस्तियों पर प्रतिफल और इक्विटी पर प्रतिफल में सुधार

10.1 समग्र स्तर पर चुनिंदा एनजीएनबीएफएंडआई कंपनियों के वित्तीय कार्यनिष्पादन में हुए सुधार के बावजूद, वर्ष 2014-15 के दौरान चुनिंदा 1,465 चिट फंड और म्यूचुअल फंड कंपनियों की वित्तीय आय दर 9.00 प्रतिशत से कम दर पर बढ़ी जो पिछले वर्ष 10.4 प्रतिशत थी। फिर भी, उनकी कुल आय दर 2013-14 के दौरान 9.4 प्रतिशत थी जिसकी तुलना में 2014-15 के दौरान बढ़कर 11.1 प्रतिशत हो गई (सारणी 2)।

10.2 चुनिंदा चिट फंड और म्यूचुअल फंड कंपनियों का कुल व्यय 2013-14 के दौरान 10.5 प्रतिशत था जिसकी तुलना में 2014-15 के दौरान 6.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कुल आय की तुलना में कुल व्यय में कम वृद्धि होने के फलस्वरूप चुनिंदा चिट फंड और म्यूचुअल फंड कंपनियों की परिचालन लाभ दर जो पिछले वर्ष 5.2

सारणी 2: चुनिंदा चिट फंड और म्यूचुअल फंड कंपनियों (1465) की वृद्धि दर एवं अनुपात

प्रतिशत

मद	2012-13	2013-14	2014-15
चुनिंदा वृद्धि दर			
1. वित्तीय आय	-	10.4	9.0
2. कुल आय	-	9.4	11.1
3. कुल व्यय	-	10.5	6.6
4. परिचालन लाभ	-	5.2	17.8
5. निवल लाभ	-	-3.2	46.2
चुनिंदा अनुपात			
1. वित्तीय आय की तुलना में ईबीडीटी	18.5	17.7	19.1
2. इक्विटी की तुलना में कर्ज	39.4	39.2	40.1
3. कुल निवल आस्तियों की तुलना में निवल लाभ	1.6	1.4	1.9
4. निवल मालियत की तुलना में निवल लाभ	7.8	6.8	9.5
5. कुल निवल आस्तियों की तुलना में उधार	17.9	17.8	15.5
6. कुल उधार की तुलना में बैंक से लिया गया उधार	23.3	14.4	15.1

टिप्पणी: कोष्ठक में दी गई संख्या चिट फंड और म्यूचुअल फंड कंपनियों की कुल संख्या दर्शाते हैं।

प्रतिशत थी उसकी तुलना में 2014-15 के दौरान 17.8 की वृद्धि हुई है। उसी प्रकार, चुनिंदा चिट फंड और म्यूचुअल फंड कंपनियों के निवल लाभ जो 2013-14 के दौरान घटकर 3.2 प्रतिशत हो गए थे 2014-15 के दौरान काफी बढ़कर 46.2 प्रतिशत हो गए (सारणी 2)।

10.3 समग्र स्तर की प्रवृत्ति के अनुरूप पिछले तीन वर्ष के दौरान धीरे-धीरे चुनिंदा चिट फंड और म्यूचुअल फंड कंपनियों के लीवरेज अनुपात (ऋण से इक्विटी अनुपात तक) बढ़े हैं। लेकिन, चुनिंदा चिट फंड और म्यूचुअल फंड कंपनियों के आरओए और आरओई में पिछले वर्ष की तुलना में मामूली गिरावट होने के बाद 2014-15 के दौरान परिचालन लाभ मार्जिन में सुधार हुआ है (सारणी 2)।

10.4 कुल निवल आस्तियों में उधारियों का हिस्सा 2013-14 के दौरान 17.8 प्रतिशत था जो घटकर 2014-15 के दौरान 15.5 प्रतिशत हो गया। लेकिन, चुनिंदा चिट फंड और म्यूचुअल फंड कंपनियों द्वारा कुल उधारियों में बैंकों से लिये गये उधारियों का हिस्सा

2013-14 के दौरान 14.4 प्रतिशत था जो 2014-15 के दौरान मामूली सा बढ़कर 15.1 प्रतिशत हो गया (सारणी 2)।

11. समापन टिप्पणी

11.1 2014-15 के दौरान चुनिंदा 23,293 एनजीएनबीएफएंडआई कंपनियों को समग्र कार्यनिष्पादन से पता चलता है कि सकल परिणाम में काफी सुधार हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में 2014-15 में कुल आय सहित योजित सकल मूल्य (जीवीए) में बढ़ोतरी हुई है। 2014-15 के दौरान कुल आय की तुलना में कुल व्यय में वृद्धि कम दर पर हुई है इसलिए, परिचालनगत लाभ (ईबीडीटी) में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की तुलना में 2014-15 के दौरान कुल ब्याज व्यय में वृद्धि मंद थी जो कुल व्यय का लगभग 60 प्रतिशत हुआ करती थी।

11.2 इसके अतिरिक्त, चुनिंदा एनजीएनबीएफ एंड आई कंपनियों की चलनिधि स्थिति तथा परिचालन कुशलता में 2014-15 में काफी सुधार हुआ है। फिर भी, 2014-15 में अपेक्षित प्राप्य अनुपात की तुलना में लीवरेज अनुपात तथा अशोध्य ऋण में वृद्धि पायी गयी है।

11.3 पिछले वर्ष की तुलना में 2014-15 के दौरान चुनिंदा एनजीएनबीएफ एंड आई कंपनियों की कुल इक्विटी और देयताओं में अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक उधारियां दोनों के हिस्से में वृद्धि हुई है, जबकि पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल इक्विटी और देयताओं में शेरधारकों की निधि के हिस्से में कमी हुई है। दूसरी ओर में, आस्तियों के पक्ष में कुल आस्तियों में अल्पकालिक ऋण और अग्रिमों में वृद्धि हुई है, जबकि 2014-15 के दौरान निवर्तमान निवेशों के साथ दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम के हिस्से में गिरावट हुई है।

11.4 चुनिंदा एनजीएनबीएफएंडआई कंपनियों के हिस्से में 2014-15 के दौरान मामूली गिरावट होने के बावजूद, वे अपने कारोबार विस्तार के लिए लगातार बाहरी स्रोतों पर निर्भर रही हैं। पिछले वर्ष की तुलना में 2014-15 के दौरान ऋण वित्त के माध्यम से जुटाई गई निधि के हिस्से में बढ़ोतरी हुई है। 2014-15 के दौरान चुनिंदा एनजीएनबीएफएंडआई कंपनियों ने मुख्यतः अपनी निधि का उपयोग अपना निवेश और अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम बढ़ाने हेतु किया है।

विवरण 1 : चुनिंदा 23,293 एनजीएनबीएफएंडआई कंपनियों की चुनिंदा मदों में वृद्धि दरें: 2013-14 और 2014-15						
(प्रतिशत)						
मद	सभी कार्यकलाप		शेयर व्यापार और निवेश धारिता		ऋण वित्त	
	(22,293)		(10,460)		(2,978)	
	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15
1. वित्तीय आय	15.1	17.1	12.9	22.2	17.4	16.3
जिसमें से: क) प्राप्त ब्याज	17.5	19.6	15.4	30.3	18.1	15.9
ख) प्राप्त लाभांश	2.5	-31.7	42.3	-70.3	7.3	-1.1
2. कुल आय	13.1	17.4	10.1	20.7	17.4	16.0
3. कुल व्यय	14.3	16.3	5.2	17.9	19.2	14.9
4. ब्याज भुगतान	17.1	12.7	9.6	14.4	20.5	11.3
5. कर्मचारियों का पारिश्रमिक	11.4	25.1	19.6	15.9	15.2	32.9
6. मूल्यहास का प्रावधान	6.3	27.1	-0.3	36.8	5.3	19.6
7. परिचालनगत लाभ (ईबीडीटी)	15.8	19.2	24.4	26.5	10.7	22.1
8. सकल वर्धित मूल्य (जीवीए)र	14.5	20.5	21.8	24.0	11.3	24.5
9. निवल लाभ	8.6	20.0	21.8	24.7	7.8	20.5
10. भुगतान किया गया लाभांश	17.1	-7.8	20.8	-11.3	8.5	8.1
11. प्रतिधारित लाभ	5.5	31.4	22.3	45.0	7.5	25.7
12. निवेश	4.5	19.9	1.0	12.6	3.0	11.3
13. कुल निवल आस्तियाँ	12.3	15.5	7.0	12.1	14.4	15.8
14. उधार	12.5	19.1	3.4	39.7	9.8	17.6
जिनमें से: बैंकों से उधार	12.0	11.7	-6.4	-6.2	31.4	-10.1
15. निवल मालियत	8.8	10.2	5.6	5.7	11.2	12.1
मद	आस्ति वित्त		विविधीकृत		विविध	
	(4,267)		(987)		(4,601)	
	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15
1. वित्तीय आय	12.9	14.5	15.6	26.6	16.0	17.2
जिसमें से: क) प्राप्त ब्याज	16.8	18.0	-19.0	52.5	21.8	31.0
ख) प्राप्त लाभांश	-73.2	-11.2	-41.0	46.2	52.2	-35.4
2. कुल आय	9.8	17.5	-22.5	24.5	16.3	16.6
3. कुल व्यय	8.9	17.0	25.7	11.4	19.4	17.9
4. ब्याज भुगतान	13.5	13.4	80.6	18.7	17.1	14.8
5. कर्मचारियों का पारिश्रमिक	-4.2	17.8	5.3	20.2	14.7	31.4
6. मूल्यहास का प्रावधान	11.2	28.0	17.6	14.7	10.1	27.2
7. परिचालनगत लाभ (ईबीडीटी)	22.0	10.2	-18.9	92.8	6.5	12.9
8. सकल वर्धित मूल्य (जीवीए)र	17.4	11.5	-9.6	55.9	8.7	18.5
9. निवल लाभ	10.9	18.7	-64.8	56.4	12.0	9.1
10. भुगतान किया गया लाभांश	29.2	-42.6	4.8	-22.7	12.1	28.6
11. प्रतिधारित लाभ	5.2	41.7	-67.3	65.4	12.0	4.1
12. निवेश	10.9	18.6	3.4	-9.0	7.7	62.1
13. कुल निवल आस्तियाँ	14.8	16.3	4.2	11.0	8.3	17.3
14. उधार	17.0	15.1	5.4	21.1	13.7	23.9
जिनमें से: बैंकों से उधार	5.5	33.3	22.5	20.8	-17.9	28.3
15. निवल मालियत	12.1	14.3	2.1	4.1	9.0	12.0

नोट: कार्यकलाप के नाम के सामने कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े गतिविधि में शामिल कंपनियों की संख्या दर्शाते हैं।

\$ जीवीए की गणना वित्तीय आय+ गैर वित्तीय आय - कुल व्यय + वेतन, मजदूरी और बोनस+ कर्मचारी कल्याण व्यय+ मूल्यहास प्रावधान से की जाती है।

विवरण 2: चुनिंदा 23,293 एनजीएनएबीएफ एंड आई कंपनियों का चुनिंदा वित्तीय अनुपात : 2012-13 से 2014-15 (प्रतिशत)									
मद	सभी कार्यकलाप			शेयर व्यापार और निवेश धारणा			ऋण वित्त		
	(23,293)			(10,460)			(2,978)		
	2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2014-15
1. निवल लाभों की तुलना में लाभांश	27.0	29.1	22.3	36.5	36.2	25.7	29.5	29.7	26.6
2. वित्तीय आय की तुलना में परिचालनगत लाभ	28.7	28.8	29.4	38.6	42.5	44.0	25.9	24.5	25.7
3. कुल निवल आस्तियों की तुलना में निवल लाभ	2.3	2.2	2.3	3.3	3.7	4.1	2.1	2.0	2.1
4. निवल मालियत की तुलना में निवल लाभ	8.2	8.2	8.9	5.8	6.7	7.9	10.3	10.0	10.7
5. ईक्विटी की तुलना में ऋण	133.3	137.3	146.1	26.9	26.5	31.8	191.3	183.3	189.9
6. कुल निवल आस्तियों की तुलना में उधार	51.0	51.1	52.7	26.0	25.1	31.3	55.5	53.2	54.1
7. कुल उधार की तुलना में बैंक उधारियां	40.7	40.5	38.0	34.7	31.4	21.1	38.5	46.0	35.2
8. चालू अनुपात	1.1	1.0	1.1	1.5	1.4	1.5	0.9	0.8	0.8
9. कुल आस्तियों की तुलना में निवल कार्यकारी पूंजी	2.6	1.0	3.4	13.2	12.0	14.0	-3.6	-6.3	-7.5
10. सम्पन्नता अनुपात	3.5	3.4	3.5	8.2	9.1	9.5	2.9	2.7	2.8
11. कुल आस्तियों की तुलना में निवल ब्याज मार्जिन	2.9	3.0	3.4	2.6	3.0	3.9	4.5	4.5	4.8
12. अपेक्षित प्राप्तियों की तुलना में अप्राप्य ऋण	4.1	2.9	5.2	3.2	0.5	0.6	9.6	7.5	24.8
मद	आस्तित्व			विविधीकृत			विविध		
	(4,267)			(987)			(4,601)		
	2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2014-15
1. निवल लाभों की तुलना में लाभांश	23.4	27.3	13.2	3.4	10.2	5.0	20.6	20.7	24.3
2. वित्तीय आय की तुलना में परिचालनगत लाभ	27.0	29.2	28.1	27.0	19.0	28.9	27.5	25.2	24.3
3. कुल निवल आस्तियों की तुलना में निवल लाभ	1.8	1.7	1.7	6.6	2.2	3.2	2.5	2.5	2.4
4. निवल मालियत की तुलना में निवल लाभ	9.5	9.4	9.8	10.2	3.5	5.3	7.4	7.6	7.4
5. ईक्विटी की तुलना में ऋण	282.0	295.8	302.7	12.1	13.3	9.9	101.5	104.0	111.5
6. कुल निवल आस्तियों की तुलना में उधार	63.9	65.1	64.5	21.4	21.7	23.7	43.7	45.9	48.5
7. कुल उधार की तुलना में बैंक उधारियां	46.3	41.8	48.4	48.7	56.6	56.5	33.2	24.0	24.8
8. चालू अनुपात	1.0	1.0	1.3	1.5	1.4	1.3	1.4	1.4	1.3
9. कुल आस्तियों की तुलना में निवल कार्यकारी पूंजी	-0.1	-1.0	8.1	10.2	8.6	7.7	10.8	11.8	9.1
10. सम्पन्नता अनुपात	2.4	2.3	2.3	19.7	7.0	8.6	3.9	4.0	3.7
11. कुल आस्तियों की तुलना में निवल ब्याज मार्जिन	2.4	2.5	2.8	1.1	-0.4	0.1	0.2	0.4	1.2
12. अपेक्षित प्राप्तियों की तुलना में अप्राप्य ऋण	0.8	0.5	0.3	0.1	0.7	0.2	0.5	2.0	1.8

नोट: कार्यकलाप के नाम के सामने कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े गतिविधि में शामिल कंपनियों की संख्या दर्शाते हैं।

\$ वास्तविक अनुपात (गुना में)

विवरण 3: चुनिंदा 23,293 एनजीएनएबीएफ एंड आई कंपनियों की आय और व्यय संरचना : 2012-13 से 2014-15									
मद	सभी कार्यकलाप			शेयर व्यापार और निवेश धारिता			ऋण वित्त		
	(23,293)			(10,460)			(2,978)		
	2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2014-15
आय									
1. वित्तीय आय \$	97.3	99.1	98.8	95.7	98.1	99.3	98.9	98.9	99.2
अ. निधि आधारित आय	94.9	97.0	96.3	94.9	97.2	98.3	96.2	96.2	95.7
जिसमें से (ए) ब्याज	68.2	70.8	72.1	43.5	45.5	49.2	88.1	88.7	88.6
(बी) लाभांश	2.0	1.8	1.1	3.1	4.0	1.0	2.1	1.9	1.6
(सी) निवल लाभ/ शेयर लेनदेन में हुई हानि	2.3	3.6	4.8	16.6	16.8	20.6	0.7	0.8	1.3
(डी) किराया खरीद वित्तपोषण से शुद्ध आय	2.9	2.2	2.2	1.5	1.5	3.5	0.3	0.3	0.4
(ई) अन्य निधि आधारित आय	18.4	17.4	15.1	29.8	28.9	23.7	4.9	4.5	3.7
आ. शुल्क आधारित आय	2.4	2.1	2.5	0.8	0.9	1.0	2.7	2.7	3.5
जिसमें से (ए) दलाली	0.3	0.3	0.3	0.1	-	-	0.6	0.5	0.6
(बी) अन्य शुल्क आधारित आय	2.1	1.8	2.2	0.8	0.8	0.9	2.2	2.2	2.9
2. गैर वित्त आय	0.8	0.6	0.5	1.6	1.4	0.5	0.4	0.2	0.5
3. गैर परिचालनगत अधिशेष(+)/ घाटा (-)	1.8	0.3	0.7	2.7	0.5	0.2	0.7	0.9	0.3
कुल आय	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
व्यय									
1. ब्याज	60.7	62.2	60.3	35.1	36.6	35.5	68.9	69.7	67.5
2. वेतन, मजदूरी और बोनस	11.1	10.8	11.6	16.9	19.2	18.9	8.7	8.4	9.7
3. भविष्य निधि	0.7	0.8	0.9	1.5	1.4	1.9	0.5	0.5	0.6
4. कर्मचारी कल्याण व्यय	0.8	0.7	0.7	1.7	0.9	0.8	0.6	0.4	0.5
5. अशोध्य ऋण #	0.9	0.6	1.1	1.2	0.2	0.2	1.7	1.1	2.5
6. अन्य व्यय	21.8	20.9	22.7	39.4	37.7	38.1	15.8	16.3	17.0
7. अन्य प्रावधान (कर और मूल्यहास के अलावा)	1.6	1.8	0.2	0.1	0.1	-	1.8	1.9	0.3
8. मूल्यहास प्रावधान	2.4	2.2	2.4	4.1	3.9	4.6	2.0	1.7	1.8
कुल व्यय	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

नोट: कार्यकलाप के नाम के सामने कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े गतिविधि में शामिल कंपनियों की संख्या दर्शाते हैं।

- शून्य अथवा नगण्य # अशोध्य ऋण के लिए प्रावधान सहित

\$ प्रत्येक कंपनी के कार्यकलाप के अनुसार परिचालन राजस्व को ब्याज आय और लाभांश आय आदि के रूप में वर्गीकृत करने के बाद प्राप्त वित्तीय आय और उसके उप घटकों को अन्य आय से संबंधित अन्य मदों में जोड़ दिया गया है।

विवरण 3: चुनिंदा 23,293 एनजीएनएबीएफ एंड आई कंपनियों की आय और व्यय संरचना : 2012-13 से 2014-15 (समाप्त)									
(प्रतिशत)									
मद	आस्तित्व			विविधीकृत			विविध		
	(4,267)			(987)			(4,601)		
	2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2014-15
आय									
1. वित्तीय आय \$	99.2	101.9	99.3	54.8	81.7	83.1	97.5	97.3	97.8
अ. निधि आधारित आय	97.0	100.9	98.2	50.6	73.9	80.8	93.8	94.3	93.7
जिसमें से (ए) ब्याज	76.7	81.6	81.9	18.5	19.3	23.6	38.6	40.4	45.4
(बी) लाभांश	1.6	0.4	0.3	2.6	2.0	2.4	1.2	1.6	0.9
(सी) निवल लाभ/ शेयर लेनदेन में हुई हानि	-3.8	0.2	0.4	1.9	3.6	7.0	0.5	1.8	3.0
(डी) किराया खरीद वित्तपोषण से शुद्ध आय	8.5	5.8	4.3	0.6	11.1	1.9	1.6	1.2	2.0
(ई) अन्य निधि आधारित आय	10.1	8.7	7.9	27.1	37.9	46.0	51.7	49.2	42.4
आ. शुल्क आधारित आय	2.1	1.0	1.1	4.2	7.8	2.3	3.7	3.0	4.1
जिसमें से (ए) दलाली	-	-	-	0.3	0.4	0.1	0.3	0.3	0.3
(बी) अन्य शुल्क आधारित आय	2.0	0.9	1.0	3.9	7.5	2.2	3.4	2.6	3.8
2. गैर वित्त आय	0.7	0.3	0.6	1.4	1.0	0.9	1.1	1.2	0.6
3. गैर परिचालनगत अधिशेष(+)/ घाटा (-)	0.1	-2.3	0.1	43.8	17.3	15.9	1.3	1.6	1.6
कुल आय	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
व्यय									
1. ब्याज	70.5	73.5	71.2	23.2	33.3	35.5	50.6	49.6	48.3
2. वेतन, मजदूरी और बोनस	9.0	7.9	8.0	24.6	20.7	22.3	13.9	13.4	14.9
3. भविष्य निधि	0.5	0.8	0.8	1.3	0.9	0.8	0.8	0.9	1.0
4. कर्मचारी कल्याण व्यय	0.6	0.9	0.9	1.7	0.8	0.5	0.8	0.7	0.8
5. अशोध्य ऋण #	0.1	0.1	0.1	-	0.2	0.1	0.2	0.6	0.4
6. अन्य व्यय	16.6	14.0	16.2	43.9	36.4	35.3	27.5	28.2	33.0
7. अन्य प्रावधान (कर और मूल्यहास के अलावा)	0.3	0.3	-	0.3	3.0	0.7	4.7	5.3	-
8. मूल्यहास प्रावधान	2.4	2.5	2.7	5.1	4.8	4.9	1.5	1.4	1.5
कुल व्यय	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

नोट: कार्यकलाप के नाम के सामने कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े गतिविधि में शामिल कंपनियों की संख्या दर्शाते हैं।

- शून्य अथवा नगण्य # अशोध्य ऋण के लिए प्रावधान सहित

\$ प्रत्येक कंपनी के कार्यकलाप के अनुसार परिचालन राजस्व को ब्याज आय और लाभांश आय आदि के रूप में वर्गीकृत करने के बाद प्राप्त वित्तीय आय और उसके उप घटकों को अन्य आय से संबंधित अन्य मदों में जोड़ दिया गया है।

विवरण 4: चुनिंदा 23,293 एनजीएनएबीएफ एंड आई कंपनियों की देयता संरचना का प्रोफाइल : 2012-13 से 2014-15

(प्रतिशत)

मद	सभी कार्यकलाप			शेयर व्यापार और निवेश धारिता			ऋण वित्त		
	(23,293)			(10,460)			(2,978)		
	2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2014-15
1. शेयरधारकों की निधि	28.3	27.4	26.2	56.1	55.3	52.4	20.5	20.0	19.4
जिसमें से									
(i) शेयर पूंजी	5.9	5.7	5.3	12.1	11.7	11.1	4.9	4.6	4.2
(ii) आरक्षित निधि और अधिशेष	22.3	21.6	20.9	43.7	43.3	41.1	15.6	15.3	15.1
2. गैर चालू देयताएं	39.6	39.5	40.3	16.2	15.7	18.0	40.7	38.1	38.4
(ए) दीर्घावधि उधारियाँ(ऋण)\$	37.7	37.6	38.3	15.1	14.7	16.7	39.3	36.6	36.8
जिसमें से,									
(i) बान्ड/डिबेंचर	7.6	6.5	11.5	-	0.3	0.8	16.4	14.2	14.6
(ii) मीयादी ऋण	17.8	24.3	20.1	4.4	4.7	4.5	15.0	14.9	13.8
जिसमें से बैंकों से	15.3	14.4	15.7	4.0	3.6	3.4	12.0	12.3	12.7
(iii) जमाराशियां	3.1	1.3	1.7	5.8	5.5	6.1	5.3	0.6	0.3
(iv) संबंधित पार्टियों से लिए गए ऋण और अग्रिम	7.8	2.7	2.2	1.9	3.2	3.3	2.3	2.7	3.0
(बी) दीर्घावधि प्रावधान	0.8	0.8	0.8	0.4	0.5	0.5	0.8	0.7	0.8
(सी) अन्य दीर्घावधि देयताएं	0.9	0.8	0.9	0.6	0.6	0.8	0.7	0.8	0.7
3. चालू देयताएं	31.9	33.0	33.4	27.4	28.6	29.5	38.7	41.9	42.3
(ए) अल्पावधि उधारियां\$	13.3	13.4	14.4	10.9	10.5	14.6	16.2	16.6	17.3
जिसमें से,									
(i) मांग पर देय ऋण	8.5	9.7	7.0	7.2	6.4	5.1	11.8	13.0	6.5
जिसमें से बैंकों से	5.4	6.3	4.3	5.0	4.3	3.2	9.3	12.1	6.3
(iv) संबंधित पार्टियों से लिए गए ऋण और अग्रिम	1.5	1.2	-	2.6	3.0	-	0.2	0.2	-
(iii) अन्य ऋण और अग्रिम	2.6	2.1	6.4	1.1	1.0	8.0	2.6	2.1	8.8
(बी) व्यापार देय	1.6	1.6	1.7	4.5	4.8	4.5	1.1	1.0	0.8
(सी) अल्पावधि प्रावधान	1.1	1.1	1.0	2.0	1.9	1.8	1.2	1.1	1.0
(डी) अन्य चालू देयताएं	16.0	16.9	16.3	9.9	11.4	8.6	20.3	23.2	23.2
कुल इक्विटी और देयताएं	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

नोट: कार्यकलाप के नाम के सामने कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े गतिविधि में शामिल कंपनियों की संख्या दर्शाते हैं।

- शून्य अथवा नगण्य

\$ गैर एक्सबीआरएल डाटा के दीर्घावधि उधारियां और अल्पावधि उधारियां के उप घटक एक्सबीआरएल डाटा के प्रत्येक कार्यकलाप समूह के अनुरूप अनुपात के आधार पर आकलित होते हैं।

विवरण 4: चुनिंदा 23,293 एनजीएनएबीएफ एंड आई कंपनियों की देयता संरचना का प्रोफाइल : 2012-13 से 2014-15 (समाप्त)
(प्रतिशत)

मद	आस्तित्व			विविधकृत			विविध		
	(4,267)			(987)			(4,601)		
	2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2014-15
1. शेयरधारकों की निधि	18.2	17.9	17.6	64.9	63.6	59.7	33.1	33.2	31.8
जिसमें से (i) शेयर पूंजी	3.4	3.6	3.3	10.9	10.7	9.7	6.0	6.0	5.5
(ii) आरक्षित निधि और अधिशेष	14.8	14.3	14.2	53.3	52.2	50.0	27.0	27.1	26.3
2. गैर चालू देयताएं	53.2	54.8	55.2	16.1	15.3	12.7	37.1	37.5	38.5
(ए) दीर्घावधि उधारियाँ(ऋण)\$	51.3	52.9	53.1	7.9	8.4	5.9	33.6	34.5	35.5
जिसमें से, (i) बान्ड/डिबेंचर	1.6	1.0	14.4	0.3	0.2	0.6	8.1	7.3	9.6
(ii) मीयादी ऋण	29.3	48.6	36.2	4.6	5.9	3.0	16.7	16.7	18.4
जिसमें से बैंकों से	27.5	24.7	28.5	2.8	3.2	2.6	11.4	9.2	8.8
(iii) जमाराशियां	0.2	0.5	-	0.1	0.1	0.3	0.9	0.4	4.9
(iv) संबंधित पार्टियों से लिए गए ऋण और अग्रिम	18.5	1.1	1.3	2.3	1.3	1.3	5.6	6.6	0.7
(बी) दीर्घावधि प्रावधान	0.6	0.6	0.6	7.5	6.1	5.5	1.1	1.0	1.0
(सी) अन्य दीर्घावधि देयताएं	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	1.2	2.4	2.0	2.0
3. चालू देयताएं	28.4	27.3	27.1	18.9	21.0	27.6	29.7	29.1	29.7
(ए) अल्पावधि उधारियां\$	12.6	12.2	11.4	13.6	13.3	17.8	10.1	11.4	13.0
जिसमें से, (i) मांग पर देय ऋण	6.0	8.7	7.6	10.7	12.1	15.5	6.9	6.6	8.1
जिसमें से बैंकों से	2.1	2.5	2.7	7.6	9.1	10.8	3.1	1.8	3.2
(iv) संबंधित पार्टियों से लिए गए ऋण और अग्रिम	2.1	1.3	-	2.5	0.1	-	1.9	1.8	0.1
(iii) अन्य ऋण और अग्रिम	4.3	2.3	3.7	0.3	1.0	2.2	1.1	3.0	4.8
(बी) व्यापार देय	0.5	0.5	1.4	1.8	1.9	1.9	1.6	1.9	1.9
(सी) अल्पावधि प्रावधान	0.8	0.7	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	1.1
(डी) अन्य चालू देयताएं	14.6	13.8	13.8	2.9	5.1	7.2	17.2	15.0	13.6
कुल इक्विटी और देयताएं	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

नोट: कार्यकलाप के नाम के सामने कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े गतिविधि में शामिल कंपनियों की संख्या दर्शाते हैं।

- शून्य अथवा नगण्य

\$ गैर एक्सबीआरएल डाटा के दीर्घावधि उधारियां और अल्पावधि उधारियां के उप घटक एक्सबीआरएल डाटा के प्रत्येक कार्यकलाप समूह के अनुरूप अनुपात के आधार पर आकलित होते हैं।

विवरण 5: चुनिंदा 23,293 एनजीएनएबीएफ एंड आई कंपनियों के आस्ति संरचना का प्रोफाइल: 2012-13 से 2014-15

(प्रतिशत)

मद	सभी कार्यकलाप			शेयर व्यापार और निवेश धारिता			ऋण वित्त		
	(23,293)			(10,460)			(2,978)		
	2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2014-15
1. चालू आस्तियां	34.5	34.0	36.8	40.6	40.6	43.5	35.1	35.6	34.8
(ए) नकदी और नकदी समकक्ष	5.6	5.8	5.7	10.0	10.0	9.5	5.0	4.8	4.5
(बी) चालू निवेश	3.2	2.8	3.6	5.6	5.2	6.8	2.1	1.6	1.5
(सी) हन्वेट्रीज	2.8	2.4	2.8	5.1	5.1	5.9	1.6	1.0	1.3
(डी) व्यापार प्राप्य	1.8	1.8	1.9	2.8	3.3	2.9	1.6	1.4	1.0
(ई) अल्पावधि ऋण और अग्रिम	18.2	17.9	20.2	15.6	15.4	16.9	20.2	21.0	23.1
(एफ) अन्य चालू आस्तियां	2.8	3.2	2.7	1.4	1.5	1.6	4.6	5.6	3.3
2. गैर चालू आस्तियां	65.5	66.0	63.2	59.4	59.4	56.5	64.9	64.4	65.2
(ए) गैर चालू निवेश\$	14.7	13.8	13.7	35.9	34.0	32.6	8.0	7.4	7.2
जिसमें से भारतीय प्रतिभूतिया	14.4	13.5	13.5	35.3	33.1	32.6	7.6	7.0	6.8
(बी) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	46.8	48.2	46.5	16.4	17.0	17.5	52.2	53.0	55.3
(सी) सकल चल आस्तियां\$	2.9	3.1	2.5	7.4	8.9	6.4	2.2	2.1	2.1
जिसमें से दृश्य आस्तियां	2.3	2.6	2.0	5.8	7.4	5.2	1.7	1.7	1.6
(डी) निवल चल आस्तियां	1.9	2.1	1.6	5.0	6.6	4.2	1.4	1.3	1.2
(ई) अन्य गैर-चालू आस्तियां	1.9	1.7	1.2	1.9	1.6	1.9	3.1	2.5	1.3
कुल आस्तियां	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
मद	आस्ति वित्त			विविधकृत			विविध		
	(4,267)			(987)			(4,601)		
	2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2014-15
1. चालू आस्तियां	28.3	26.3	35.2	29.2	29.6	35.3	40.5	40.9	38.7
(ए) नकदी और नकदी समकक्ष	4.1	4.6	5.8	4.3	4.6	3.6	5.8	6.3	4.5
(बी) चालू निवेश	1.4	1.5	2.2	9.5	9.2	2.2	6.6	5.7	8.8
(सी) हन्वेट्रीज	2.5	2.0	2.1	3.6	3.4	14.7	3.9	3.7	3.3
(डी) व्यापार प्राप्य	1.0	1.0	2.3	2.4	2.1	2.0	2.9	2.9	2.1
(ई) अल्पावधि ऋण और अग्रिम	17.3	15.2	19.7	8.3	9.0	11.8	19.3	20.3	18.4
(एफ) अन्य चालू आस्तियां	2.0	2.0	3.0	1.1	1.2	1.0	2.0	2.1	1.7
2. गैर चालू आस्तियां	71.7	73.7	64.8	70.8	70.4	64.7	59.5	59.1	61.3
(ए) गैर चालू निवेश\$	9.0	8.6	8.1	59.9	59.6	54.2	13.2	13.9	18.4
जिसमें से भारतीय प्रतिभूतिया	9.0	8.6	8.1	59.9	59.6	54.2	13.2	13.9	18.4
(बी) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	60.6	62.9	55.1	7.4	7.2	6.6	42.8	42.0	39.5
(सी) सकल चल आस्तियां\$	1.6	1.6	1.4	4.5	4.6	4.3	2.2	2.3	2.0
जिसमें से दृश्य आस्तियां	1.3	1.4	1.1	4.0	4.0	3.8	1.9	2.0	1.8
(डी) निवल चल आस्तियां	1.1	1.1	0.9	3.0	2.9	2.7	1.5	1.5	1.4
(ई) अन्य गैर-चालू आस्तियां	0.8	1.0	0.7	0.5	0.7	1.0	1.6	1.3	1.5
कुल आस्तियां	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

नोट: कार्यकलाप के नाम के सामने कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े गतिविधि में शामिल कंपनियों की संख्या दर्शाते हैं।

\$ गैर एक्सबीआरएल डाटा के निवेश और सकल चल आस्तियों के उप घटक एक्सबीआरएल डाटा के प्रत्येक कार्यकलाप समूह के अनुरूप अनुपात के आधार पर आकलित होते हैं।

विवरण 6 : चुनिंदा 23,293 एनजीएनबीएफएंडआई कंपनियों की निधि के स्रोत की संरचना : 2013-14 और 2014-15

(प्रतिशत)

मद	सभी कार्यकलाप		शेयर व्यापार और निवेश धारिता		ऋण वित्त	
	(23,293)		(10,460)		(2,978)	
	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15
आंतरिक स्रोत	15.2	15.8	30.0	27.2	15.2	11.1
1. प्रदत्त पूंजी	3.4	2.0	6.0	6.2	1.7	1.3
2. आरक्षित निधि और अधिशेष	10.2	11.8	21.5	18.3	11.9	7.0
3. प्रावधान	1.7	1.9	2.5	2.7	1.6	2.9
बाह्य स्रोत	84.8	84.2	70.0	72.8	84.8	88.9
4. शेयर पूंजी और शेयर पर प्रीमियम	6.7	5.0	15.4	4.7	2.3	7.3
ए. गैर चालू देयताएं	37.9	44.4	8.4	35.3	19.3	37.9
5. दीर्घावधि उधारिया	36.9	42.6	8.3	32.6	17.8	37.5
जिसमें से (ए) बान्ड/डिबेंचर	-1.8	43.5	3.7	5.4	-1.2	17.0
(बी) मीयादी ऋण	76.4	-6.7	8.4	2.6	14.2	6.9
जिसमें से, बैंकों से	6.4	24.4	-2.0	1.1	14.3	15.1
(सी) जमाराशियां	-12.9	4.5	2.2	10.7	-31.9	-1.7
(डी) संबंधित पार्टियों से ऋण और अग्रिम	-38.4	-1.5	21.1	4.4	5.2	5.4
6. अन्य दीर्घावधि देयताएं	0.7	1.2	0.3	2.5	1.5	0.3
बी. चालू देयताएं	40.3	35.6	44.4	36.2	63.2	44.0
7. अल्पावधि उधारियां	14.8	20.3	4.2	48.3	19.4	21.6
जिसमें से, (ए) मांग पर देय ऋण	19.1	-10.0	-4.5	-5.9	20.9	-34.3
जिसमें से, बैंकों से	13.8	-8.8	-6.2	-5.0	31.8	-30.8
(बी) संबंधित पार्टियों से ऋण और अग्रिम	-1.0	-7.5	8.7	-24.0	0.4	-1.0
(सी) जमाराशियां	-0.8	3.7	0.4	13.2	-0.3	5.6
(डी) अन्य ऋण और अग्रिम	-2.5	34.0	-0.5	65.1	-1.6	51.3
8. व्यापार देय	1.9	2.7	8.6	2.2	0.5	-0.6
9. अन्य चालू देयताएं	23.6	12.7	31.6	-14.2	43.2	23.0
कुल निधियों के स्रोत	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

नोट: कार्यकलाप के नाम के सामने कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े गतिविधि में शामिल कंपनियों की संख्या दर्शाते हैं।

- शून्य अथवा नगण्य

विवरण 6 : चुनिंदा 23,293 एनजीएनबीएफएंडआई कंपनियों की निधि के स्रोत की संरचना : 2013-14 और 2014-15 (समाप्त) (प्रतिशत)						
मद	आस्ति वित्त		विविधकृत		विविध	
	(4,267)		(987)		(4,601)	
	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15
आंतरिक स्रोत	5.8	13.7	11.0	10.1	37.9	23.0
1. प्रदत्त पूंजी	4.8	1.7	4.9	-0.3	1.9	1.3
2. आरक्षित निधि और अधिशेष	-0.4	12.0	23.9	7.8	32.9	18.4
3. प्रावधान	1.3	-0.1	-17.8	2.6	3.1	3.3
बाह्य स्रोत	94.2	86.3	89.0	89.9	62.1	77.0
4. शेयर पूंजी और शेयर पर प्रीमियम	11.4	2.0	2.7	22.3	-0.8	4.7
ए. गैर चालू देयताएं	64.9	57.5	23.6	-11.7	42.0	43.0
5. दीर्घावधि उधारियां	63.3	54.6	20.6	-16.9	44.8	41.0
जिसमें से (ए) बान्ड/डिबेंचर	-3.7	97.5	-1.1	4.0	-2.8	22.9
(बी) मीयादी ऋण	177.9	-39.9	34.9	-23.7	16.3	28.1
जिसमें से, बैंकों से	5.7	52.1	10.6	-2.7	-17.2	6.7
(सी) जमाराशियां	2.1	-2.6	0.3	1.6	-5.0	30.7
(डी) संबंधित पार्टियों से ऋण और अग्रिम	-116.0	3.0	-22.6	0.9	18.8	-33.6
6. अन्य दीर्घावधि देयताएं	0.9	1.1	2.6	5.2	-2.8	2.0
बी. चालू देयताएं	18.8	26.7	63.7	85.7	19.7	30.6
7. अल्पावधि उधारियां	9.6	6.1	5.8	58.1	26.0	22.4
जिसमें से, (ए) मांग पर देय ऋण	26.8	1.3	43.2	45.7	2.3	16.8
जिसमें से, बैंकों से	5.3	3.7	42.6	25.7	-13.5	11.3
(बी) संबंधित पार्टियों से ऋण और अग्रिम	-4.5	-7.8	-55.0	-0.8	0.5	-9.8
(सी) जमाराशियां	-1.3	-0.1	0.2	-	-2.2	0.1
(डी) अन्य ऋण और अग्रिम	-11.4	12.6	17.4	13.2	25.2	15.4
8. व्यापार देय	1.0	6.7	2.8	2.0	4.8	2.4
9. अन्य चालू देयताएं	8.3	13.9	55.0	25.6	-11.0	5.8
कुल निधियों के स्रोत	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

नोट : कार्यकलाप के नाम के सामने कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े गतिविधि में शामिल कंपनियों की संख्या दर्शाते हैं।

- शून्य अथवा नगण्य

विवरण 7: चुनिंदा 23,293 एनजीएनएबीएफ एंड आई कंपनियों के निधि उपयोग की संरचना 2012-13 से 2014-15 (प्रतिशत)						
मद	सभी कार्यकलाप		शेयर व्यापार और निवेश धारणा		ऋण वित्त	
	(23,293)		(10,460)		(2,978)	
	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15
1. चालू आस्तियां	29.4	55.0	39.5	66.5	38.5	30.0
(ए) नकदी और नकदी समकक्ष	6.8	5.1	10.3	5.2	3.6	2.5
(बी) चालू निवेश	-0.3	8.3	-0.5	19.2	-1.5	1.1
(सी) इन्वेंट्रीज	-0.9	5.2	5.5	12.5	-2.7	3.3
(डी) व्यापार प्राप्य	1.4	2.5	10.0	-0.9	0.1	-2.0
(ई) अल्पावधि ऋण और अग्रिम	15.9	34.7	12.2	28.4	26.8	36.2
(एफ) अन्य चालू आस्तियां	6.4	-0.8	2.1	2.1	12.3	-11.3
2. गैर चालू आस्तियां	70.6	45.0	60.5	33.5	61.5	70.0
(ए) गैर चालू निवेश	6.7	13.0	6.6	21.0	3.5	5.3
जिसमें से भारतीय प्रतिभूतियां	6.1	13.7	2.2	27.8	3.0	5.1
(बी) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	59.6	34.9	26.5	21.1	57.8	70.0
(सी) सकल चल आस्तियां	0.4	-0.2	0.4	0.6	0.8	-0.7
(डी) निवल चल आस्तियां	4.3	-1.0	29.7	-13.3	1.3	1.8
(ई) अन्य गैर-चालू आस्तियां	-0.5	-1.7	-2.7	4.1	-2.0	-6.4
कुल उपयोग में लायी गयी निधियां	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
मद	आस्ति वित्त		विविधीकृत		विविध	
	(4,267)		(987)		(4,601)	
	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15
1. चालू आस्तियां	12.5	89.7	37.7	86.6	45.4	26.2
(ए) नकदी और नकदी समकक्ष	8.2	12.9	10.7	-4.8	11.8	-5.6
(बी) चालू निवेश	2.1	6.6	3.2	-60.8	-4.1	26.6
(सी) इन्वेंट्रीज	-0.9	2.5	-1.2	116.2	1.2	0.6
(डी) व्यापार प्राप्य	0.5	10.8	-3.4	0.4	2.2	-2.3
(ई) अल्पावधि ऋण और अग्रिम	0.9	47.4	25.3	36.8	30.9	7.3
(एफ) अन्य चालू आस्तियां	1.6	9.5	3.0	-1.3	3.3	-0.5
2. गैर चालू आस्तियां	87.5	10.3	62.3	13.4	54.6	73.8
(ए) गैर चालू निवेश	5.6	4.9	50.5	5.1	22.1	44.1
जिसमें से भारतीय प्रतिभूतियां	5.6	4.9	50.5	5.1	22.1	44.1
(बी) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	78.0	6.9	2.9	0.5	31.3	25.2
(सी) आस्थगित कर आस्तियां	0.1	-0.4	0.7	1.7	0.4	0.9
(डी) सकल चल आस्तियां	1.7	-0.2	5.0	2.2	3.0	0.6
(ई) अन्य गैर-चालू आस्तियां	2.2	-1.0	3.3	3.9	-2.2	3.0
कुल उपयोग में लायी गयी निधियां	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

नोट: कार्यकलाप के नाम के सामने कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े गतिविधि में शामिल कंपनियों की संख्या दर्शाते हैं।